



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 400
K.M. 30
Depth 150
C.D.B. 220
B/20860
13/1/05

सं. 570]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2004/पौष 8, 1926

No. 570]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004/PAUSA 8, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक सौ रुपए और दो रुपए के सिक्के का “दूरसंचार के 150 वर्ष” का स्मरणोत्सव मनाने के लिए सिक्का निर्माण नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—इन नियमों में “अधिनियम” से सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) अभिप्रेत है।

3. “दूरसंचार के 150 वर्ष” का स्मरणोत्सव मनाने के लिए निर्मित किए गए कतिपय अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और उन पर अनुज्ञात उपचार “दूरसंचार के 150 वर्ष” का स्मरणोत्सव मनाने के लिए इस अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन निर्मित किए गए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगा :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपए	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500 तक कमी-बेशी अर्थात् चांदी की अंतर्वस्तु में प्रति 1000 में 498 से 502 तक अंतर हो सकता है।	1/100 तक कमी-बेशी अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक अंतर हो सकता है।

(1)	(2)	(3)	(4)
दो रुपए	6 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100 तक कमी-बेशी अर्थात् तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत और निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक अंतर हो सकता है।	1/40 कमी-बेशी अर्थात् वजन में 5.850 ग्राम से 6.150 ग्राम तक अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 7/6/2003-सिक्का II(I)]

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2004

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 21 read with Section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Coinage of the Hundred Rupees and Two Rupees coined to commemorate “150 Years of Telecommunications” Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**—In these rules, “Act” means Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

3. **Standard Weight and Remedy allowed on coins of certain denominations coined to commemorate “150 YEARS OF TELECOMMUNICATIONS”**. The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of Section 6 of the Act, to commemorate “150 YEARS OF TELECOMMUNICATIONS” and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Denomination	Standard weight	Remedy Allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver that is to say, the Silver contents may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Two Rupees	6 Grams	1/100th plus or minus both for Copper and Nickel, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 5.850 grams to 6.150 grams.

[F. No. 7/6/2003-Coin.II(I)]

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.